

## थाना को0 देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के 03 आरोपी गिरफ्तार

जातव्य हो कि दिनांक 21.05.2021 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मिश्र लहौली से ग्राम लहौली दक्षिण की बारी में महेंद्र बिंद पुत्र बेचू बिन्द के यहां बारात आयी थी। दिनांक 22.05.2021 की भोर में समय 03.30 बजे के करीब जयकुमार उर्फ पतालू बिन्द पुत्र मुनीव निवासी ग्राम लहौली दक्षिण बाबा की बारी थाना को0देहात मीरजापुर अपने छोटे भाई के साथ बारात में गए थे। जहां कुर्सी पर बैठने को लेकर धक्का देना व मारपीट को लेकर इसी गांव के 1-राजू चौहान पुत्र कल्लू 2-पुजारी चौहान पुत्र उमाशंकर 3- अजय चौहान पुत्र बाबूलाल द्वारा जयकुमार उर्फ पतालू विन्द को मारने पीटने लगे, जिससे जयकुमार उर्फ पतालू बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा इलाज हेतु जिला चिकित्सालय मीरजापुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जयकुमार उर्फ पतालू विन्द उम्र 14 वर्ष को मृत घोषित कर दिया गया। थाना को0देहात पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजकर, इस सम्बन्ध में थाना को0देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, उक्त अभियोग में वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु किये जाये रहे प्रयासों के क्रम में आज दिनांक 23.05.2021 को उ0नि0 रामबचन सिंह यादव मयहमराह द्वारा जरिये मुखबीर से प्राप्त सूचना पर ग्राम राजपुर नहर तिराहा के पास से समय 06.30 बजे कही जाने की फिराक में खड़े अभियोग के वाछिंत अभियुक्त 1-पुजारी उर्फ विक्रम पुत्र उमाशंकर चौहान निवासी ग्राम मिश्र लहौली थाना को0 देहात जनपद मीरजापुर 2-राजू चौहान पुत्र कल्लू चौहान निवासी मिश्र लहौली थाना को0 देहात जनपद मीरजापुर 3- अजय चौहान पुत्र बाबूलाल निवासी मिश्र लहौली थाना को0 देहात जनपद मीरजापुर को नियमानुसार गिरफ्तार कर मां0 न्यायालय भेजा गया।

### नामपता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-पुजारी उर्फ विक्रम पुत्र उमाशंकर चौहान निवासी ग्राम मिश्र लहौली थाना को0 देहात जनपद मीरजापुर ।

2-राजू चौहान पुत्र कल्लू चौहान निवासी मिश्र लहौली थाना को0 देहात जनपद मीरजापुर।

3- अजय चौहान पुत्र बाबूलाल निवासी मिश्र लहौली थाना को0 देहात जनपद मीरजापुर।

### गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 23.05.2021 समय 06.30 बजे, ग्राम राजपुर नहर तिराहा

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-30नि0 रामबचन सिंह यादव थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।

2-30नि0 रामदयाल सिंह थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।

3-कां0 विजय कुमार यादव थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।

4-हो0गा0 उमाशंकर तिवारी थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।

